

KENDRIYA VIDYALAYA, IIT CAMPUS, CHENNAI – 36.

CLASS: V

ENGLISH

TOPIC: GULLIVER'S TRAVELS

ELO: 1) Children learn to comprehend from the story given.

2) They are able to use the dictionary.

Concept: 1) Comprehension based on the story.

2) Find meanings from the dictionary.

Worksheets: Read the lesson 'Gulliver's travels' from your reader and answer the following questions.

- 1) Why did the captain send the men to the land?**
- 2) Why did the men rush back to the ship?**
- 3) How was the country?**
- 4) How high was the dining table from the floor?**
- 5) Who is the author of the book 'Gulliver's travels'?**

Find the meanings for the following words using dictionary.

- 1) Autobiography –**
- 2) Biography –**
- 3) Discovery –**
- 4) Invention –**
- 5) Explore –**
- 6) Hedge –**

विषय – हिंदी
पाठ – 13 स्वामी की दादी
(पठन)

1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो-

राजम के पिता पुलिस अधीक्षक हैं | वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं | दादी इस बात से काफी प्रभावित हुई | उन्होंने कहा – “ उनका सच में बहुत बड़ा दफ्तर होगा |” फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब-मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे| उनसे डर कर खूंखार से भी खूंखार डाकू भी भाग खड़े होते थे|

प्र.1 राजम के पिता क्या हैं ?

उ.-----

प्र.2 स्वामीनाथन के दादा क्या थे ?

उ.-----

प्र.3 खूंखार से खूंखार डाकू किसके डर से भाग जाते थे ?

उ.-----

प्र.4 अनुच्छेद में आया एक सर्वनाम शब्द लिखो |

उ.-----

प्र.5 अनुच्छेद में आया एक ऐसा शब्द लिखो जिसमें ‘फ़’ आया हो |

उ.-----

(व्याकरण)

1. बहुवचन रूप लिखो –सीढ़ी -----
2. विशेषण शब्द को रेखांकित करो – खूंखार डाकू
3. वाक्यांश में दिए गए रेखांकित शब्द का लिंग लिखो –
पुलिस की वर्दी - _____
4. “ स्वामीनाथन की दादी बहुत प्रसन्न हुई।”
ऊपर लिखे वाक्य से संज्ञा शब्द ढूँढकर लिखो ।

5. विलोम शब्द लिखो –मूर्ख -----

(वर्तनी)

1. शुद्ध रूप लिखो – शब्द - -----
2. सही पर गोला लगाओ – विश्वास/विश्वास
3. सही शब्द बनाओ – अ क क्ष धी - _____
4. चंद्र बिंदु वाला एक शब्द लिखो - _____
5. सही मात्रा लगाओ –दुरयाँ

Sub : Maths

Topic: Tenths and Hundredths

Concepts: Place value and expanded form of decimals, Basic addition, subtraction and multiplication of decimals.

I. Write the number name of the following:

a) 2.5=

b) 34.56=

c) 408.876=

II. Write the place value of the underlined digit:

a) 34.75= _____

b) 768.23= _____

c) 54.12= _____

III. Expand the following :

a) 36.78= _____ + _____ + _____ + _____

b) 897.43 = _____ + _____ + _____ + _____ + _____

c) 6.234= _____ + _____ + _____ + _____

IV. ADDITION

When the decimal numbers do not have the same number of decimal

digits, you can fill in the spaces with zeros. You can then add the columns normally.

Decimal Addition

Three Digit Decimals - Some Regrouping

Name: _____ Date: _____

(1)
$$\begin{array}{r} .58 \\ +3.56 \\ \hline \end{array}$$

(2)
$$\begin{array}{r} 4.25 \\ +2.13 \\ \hline \end{array}$$

(3)
$$\begin{array}{r} .834 \\ +.155 \\ \hline \end{array}$$

(4)
$$\begin{array}{r} 5.22 \\ +4.44 \\ \hline \end{array}$$

(5)
$$\begin{array}{r} 5.23 \\ +3.39 \\ \hline \end{array}$$

(6)
$$\begin{array}{r} 4.36 \\ +2.01 \\ \hline \end{array}$$

(7)
$$\begin{array}{r} .8 \\ +.135 \\ \hline \end{array}$$

(8)
$$\begin{array}{r} 5.13 \\ +3.43 \\ \hline \end{array}$$

(9)
$$\begin{array}{r} 3.56 \\ +4.43 \\ \hline \end{array}$$

(10)
$$\begin{array}{r} .331 \\ +.156 \\ \hline \end{array}$$

(11)
$$\begin{array}{r} 3.43 \\ +3.07 \\ \hline \end{array}$$

(12)
$$\begin{array}{r} 2.05 \\ +3.83 \\ \hline \end{array}$$

(13)
$$\begin{array}{r} 3.03 \\ +3.77 \\ \hline \end{array}$$

(14)
$$\begin{array}{r} 5.01 \\ +2.17 \\ \hline \end{array}$$

(15)
$$\begin{array}{r} 34. \\ +32.6 \\ \hline \end{array}$$

(16)
$$\begin{array}{r} 3.01 \\ +2.68 \\ \hline \end{array}$$

(17)
$$\begin{array}{r} .341 \\ +.658 \\ \hline \end{array}$$

(18)
$$\begin{array}{r} 14.2 \\ +8.05 \\ \hline \end{array}$$

(19)
$$\begin{array}{r} .131 \\ +.71 \\ \hline \end{array}$$

(20)
$$\begin{array}{r} .123 \\ +.464 \\ \hline \end{array}$$

(21)
$$\begin{array}{r} 5.8 \\ +3.16 \\ \hline \end{array}$$

(22)
$$\begin{array}{r} 6.66 \\ +3.18 \\ \hline \end{array}$$

(23)
$$\begin{array}{r} 5.08 \\ +2.65 \\ \hline \end{array}$$

(24)
$$\begin{array}{r} 27.6 \\ +2.17 \\ \hline \end{array}$$

(25)
$$\begin{array}{r} 80. \\ +16.8 \\ \hline \end{array}$$

(26)
$$\begin{array}{r} 3.94 \\ +2.05 \\ \hline \end{array}$$

(27)
$$\begin{array}{r} 5.51 \\ +3.56 \\ \hline \end{array}$$

(28)
$$\begin{array}{r} 3.7 \\ +5.47 \\ \hline \end{array}$$

(29)
$$\begin{array}{r} .428 \\ +.564 \\ \hline \end{array}$$

(30)
$$\begin{array}{r} .473 \\ +.146 \\ \hline \end{array}$$

(31)
$$\begin{array}{r} 5.13 \\ +4.56 \\ \hline \end{array}$$

(32)
$$\begin{array}{r} 3.47 \\ +2.36 \\ \hline \end{array}$$

(33)
$$\begin{array}{r} 3.23 \\ +6.7. \\ \hline \end{array}$$

(34)
$$\begin{array}{r} .534 \\ +.111 \\ \hline \end{array}$$

(35)
$$\begin{array}{r} .148 \\ +.901 \\ \hline \end{array}$$

Decimal Subtraction

3 Digit - 2 Digit Decimals - No Regrouping

Name: _____ Date: _____

(1)
$$\begin{array}{r} 4.78 \\ - .61 \\ \hline \end{array}$$

(2)
$$\begin{array}{r} 1.47 \\ - .1 \\ \hline \end{array}$$

(3)
$$\begin{array}{r} 58.7 \\ - 3.6 \\ \hline \end{array}$$

(4)
$$\begin{array}{r} 5.24 \\ - .11 \\ \hline \end{array}$$

(5)
$$\begin{array}{r} 95.6 \\ - 2.4 \\ \hline \end{array}$$

(6)
$$\begin{array}{r} 9.87 \\ - .14 \\ \hline \end{array}$$

(7)
$$\begin{array}{r} 6.57 \\ - .41 \\ \hline \end{array}$$

(8)
$$\begin{array}{r} 43.7 \\ - 3. \\ \hline \end{array}$$

(9)
$$\begin{array}{r} 44.5 \\ - 1.1 \\ \hline \end{array}$$

(10)
$$\begin{array}{r} 66.8 \\ - 5.6 \\ \hline \end{array}$$

(11)
$$\begin{array}{r} 9.95 \\ - .52 \\ \hline \end{array}$$

(12)
$$\begin{array}{r} 17.8 \\ - 4.5 \\ \hline \end{array}$$

(13)
$$\begin{array}{r} 17.9 \\ - 4.1 \\ \hline \end{array}$$

(14)
$$\begin{array}{r} 46.8 \\ - 1. \\ \hline \end{array}$$

(15)
$$\begin{array}{r} 6.98 \\ - .11 \\ \hline \end{array}$$

(16)
$$\begin{array}{r} 7.98 \\ - .77 \\ \hline \end{array}$$

(17)
$$\begin{array}{r} 1.65 \\ - .21 \\ \hline \end{array}$$

(18)
$$\begin{array}{r} 13.4 \\ - 2.2 \\ \hline \end{array}$$

(19)
$$\begin{array}{r} 88.9 \\ - 2.8 \\ \hline \end{array}$$

(20)
$$\begin{array}{r} 8.78 \\ - .61 \\ \hline \end{array}$$

(21)
$$\begin{array}{r} 6.52 \\ - .21 \\ \hline \end{array}$$

(22)
$$\begin{array}{r} 4.79 \\ - .41 \\ \hline \end{array}$$

(23)
$$\begin{array}{r} 34.8 \\ - 3.1 \\ \hline \end{array}$$

(24)
$$\begin{array}{r} 18.8 \\ - 1.7 \\ \hline \end{array}$$

(25)
$$\begin{array}{r} 7.85 \\ - .24 \\ \hline \end{array}$$

(26)
$$\begin{array}{r} 3.45 \\ - .31 \\ \hline \end{array}$$

(27)
$$\begin{array}{r} 5.52 \\ - .31 \\ \hline \end{array}$$

(28)
$$\begin{array}{r} 62.7 \\ - 1.1 \\ \hline \end{array}$$

(29)
$$\begin{array}{r} 55.8 \\ - 2.4 \\ \hline \end{array}$$

(30)
$$\begin{array}{r} 8.64 \\ - .44 \\ \hline \end{array}$$

(31)
$$\begin{array}{r} 1.72 \\ - .4 \\ \hline \end{array}$$

(32)
$$\begin{array}{r} 7.52 \\ - .1 \\ \hline \end{array}$$

(33)
$$\begin{array}{r} 5.58 \\ - .21 \\ \hline \end{array}$$

(34)
$$\begin{array}{r} 5.46 \\ - .3 \\ \hline \end{array}$$

(35)
$$\begin{array}{r} 19.4 \\ - 8.3 \\ \hline \end{array}$$

Decimal Multiplication

2 Digit by 1 Digit Decimals - Mixed Decimal Places

Name: _____ Date: _____

(1)
$$\begin{array}{r} .95 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

(2)
$$\begin{array}{r} .88 \\ \times .5 \\ \hline \end{array}$$

(3)
$$\begin{array}{r} 3.1 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

(4)
$$\begin{array}{r} .83 \\ \times .5 \\ \hline \end{array}$$

(5)
$$\begin{array}{r} .75 \\ \times .9 \\ \hline \end{array}$$

(6)
$$\begin{array}{r} 3.4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

(7)
$$\begin{array}{r} .31 \\ \times .5 \\ \hline \end{array}$$

(8)
$$\begin{array}{r} 4.3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

(9)
$$\begin{array}{r} .21 \\ \times .5 \\ \hline \end{array}$$

(10)
$$\begin{array}{r} .95 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

(11)
$$\begin{array}{r} .14 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

(12)
$$\begin{array}{r} .57 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

(13)
$$\begin{array}{r} .75 \\ \times .2 \\ \hline \end{array}$$

(14)
$$\begin{array}{r} 9.2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

(15)
$$\begin{array}{r} 3.8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

(16)
$$\begin{array}{r} .23 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

(17)
$$\begin{array}{r} .41 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

(18)
$$\begin{array}{r} .53 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

(19)
$$\begin{array}{r} .15 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

(20)
$$\begin{array}{r} 4.2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

(21)
$$\begin{array}{r} .29 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

(22)
$$\begin{array}{r} 5.1 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

(23)
$$\begin{array}{r} .25 \\ \times .7 \\ \hline \end{array}$$

(24)
$$\begin{array}{r} .49 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

(25)
$$\begin{array}{r} .62 \\ \times .6 \\ \hline \end{array}$$

(26)
$$\begin{array}{r} .65 \\ \times .8 \\ \hline \end{array}$$

(27)
$$\begin{array}{r} .83 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

(28)
$$\begin{array}{r} 2.8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

(29)
$$\begin{array}{r} .71 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

(30)
$$\begin{array}{r} .52 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

(31)
$$\begin{array}{r} .51 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

(32)
$$\begin{array}{r} .55 \\ \times .8 \\ \hline \end{array}$$

(33)
$$\begin{array}{r} .75 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

(34)
$$\begin{array}{r} .95 \\ \times .7 \\ \hline \end{array}$$

(35)
$$\begin{array}{r} 5.8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

EVS- V : When the Earth shook –November 2015

Watch, play the game, vary the intensity of the earthquakes...observe what disaster it causes. Observe how the seismograph works, how it is measured on the Richter scale!

<http://www.iknowthat.com/mhscience/Earthquakes/Fixed.htm>

Take this quiz on earthquake!

<https://www.studyladder.com/games/activity/earthquakes-27819>

Watch this to know: what to do during a quake:

<https://www.youtube.com/watch?v=CXAgm2Tzd0g>

Now be ready for discussion in class:

Earthquake:

What to do before/ during and after a quake....

